

एक्स-रे और डेंटल इमेजिंग



डेंटल इमेजिंग क्या है?

डेंटल इमेजिंग दांतों और जबड़ों की छवियों का उत्पादन करने के लिए विभिन्न नैदानिक उपकरणों के उपयोग को संदर्भित करता है। इन छवियों का उपयोग दंत समस्याओं का निदान करने और दंत चिकित्सा उपचार की योजना बनाने के लिए किया जाता है। एक्स-रे, सीटी स्कैन और डिजिटल इमेजिंग सहित कई प्रकार की दंत इमेजिंग तकनीकें उपलब्ध हैं।



एक्स-रे

एक्स-रे दंत इमेजिंग तकनीक का सबसे आम प्रकार है। उनका उपयोग दंत समस्याओं जैसे गुहाओं, मसूड़ों की बीमारी और हड्डियों के नुकसान का निदान करने के लिए किया जाता है। एक्स-रे दांतों और जबड़े की छवियों का उत्पादन करने के लिए विकिरण की एक छोटी मात्रा का उपयोग करते हैं। डेंटल एक्स-रे में इस्तेमाल होने वाले रेडिएशन की मात्रा बहुत कम होती है और ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित मानी जाती है।

दंत एक्स-रे के दो मुख्य प्रकार हैं:




बिटविंग एक्स-रे: बिटविंग एक्स-रे का उपयोग गुहाओं और मसूड़ों की बीमारी के निदान के लिए किया जाता है। उन्हें रोगी को फिल्म या डिजिटल सेंसर के एक विशेष टुकड़े पर काटने के साथ लिया जाता है।



पैनोरमिक एक्स-रे: पैनोरमिक एक्स-रे का उपयोग दांतों, जबड़े और साइनस के साथ समस्याओं का निदान करने के लिए किया जाता है। उन्हें रोगी के खड़े होने या सीधे बैठने और एक्स-रे मशीन को एक मनोरम छवि बनाने के लिए सिर के चारों ओर घुमाने के साथ लिया जाता है।



पैनोरमिक एक्स-रे से छवि



सीटी स्कैन

सीटी स्कैन, या कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, एक प्रकार की दंत इमेजिंग तकनीक है जो दांतों, जबड़ों और आसपास की संरचनाओं की विस्तृत 3 डी छवियों का उत्पादन करती है। सीटी स्कैन का उपयोग जटिल दंत समस्याओं जैसे प्रभावित दांतों, जबड़े के ट्यूमर और टेम्पोरोमैडिबुलर संयुक्त विकारों (टीएमजे) के निदान के लिए किया जाता है।


कोन-बीम सीटी स्कैन को कभी-कभी 'सीबीसीटी स्कैन' के रूप में जाना जाता है

सीटी स्कैन विस्तृत छवियों का उत्पादन करने के लिए एक्स-रे और कंप्यूटर तकनीक के संयोजन का उपयोग करते हैं। वे पारंपरिक एक्स-रे की तुलना में अधिक महंगे होते हैं और रोगी को विकिरण की उच्च मात्रा में उजागर करते हैं।

डिजिटल इमेजिंग

डिजिटल इमेजिंग एक नए प्रकार की दंत इमेजिंग तकनीक है जो दांतों और जबड़ों की छवियों का उत्पादन करने के लिए डिजिटल सेंसर का उपयोग करती है। डिजिटल इमेजिंग पारंपरिक एक्स-रे की तुलना में तेज और अधिक सटीक है और विकिरण की कम मात्रा का उपयोग करता है। यह दंत चिकित्सकों को कंप्यूटर स्क्रीन पर छवियों को देखने और दंत समस्याओं का बेहतर निदान करने के लिए कंट्रास्ट और चमक को समायोजित करने की अनुमति देता है।

कई प्रकार की डिजिटल इमेजिंग तकनीकें उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं:



इंट्राओरल कैमरा



डिजिटल एक्स-रे

इंट्राओरल कैमरे: इंट्राओरल कैमरे छोटे कैमरे होते हैं जिन्हें दांतों और मसूड़ों की छवियों का उत्पादन करने के लिए मुंह में डाला जाता है। उनका उपयोग दंत समस्याओं जैसे गुहाओं, फटे दांतों और मसूड़ों की बीमारी के निदान के लिए किया जाता है।

डिजिटल एक्स-रे: डिजिटल एक्स-रे दांतों और जबड़े की छवियों का उत्पादन करने के लिए डिजिटल सेंसर का उपयोग करते हैं। वे पारंपरिक एक्स-रे की तुलना में तेज और अधिक सटीक हैं और विकिरण की कम मात्रा का उपयोग करते हैं।

समाप्ति

दंत चिकित्सा समस्याओं के निदान और दंत चिकित्सा उपचार की योजना बनाने के लिए दंत इमेजिंग एक आवश्यक उपकरण है। एक्स-रे, सीटी स्कैन और डिजिटल इमेजिंग सहित कई प्रकार की दंत इमेजिंग तकनीकें उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रकार की दंत इमेजिंग तकनीक के अपने लाभ और कमियां हैं, और सही प्रकार चुनना कई कारकों पर निर्भर करता है। यदि आपके पास दंत इमेजिंग के बारे में कोई प्रश्न या चिंता है तो पेशेवर दंत सलाह लेना याद रखें।